



## Session 2024-25 Fun Frolic Activities Std II

**Summer vacation is synonymous with fun, frolic, getting up late in the morning, playing for longer hours with friends, going for picnics, exploring new places and having fun. But dear children we have planned some assignments and creative work for you so that you can make the optimum use of your time and energy.**

### हिंदी

अपने घर में या आस - पास स्थित किसी बगीचे में बागवानी करने आए माली से वार्तालाप करते हुए एक वीडियो बनाइए। वार्तालाप निम्न बिंदुओं पर आधारित हो सकता है -

- \* अभिवादन
- \* माली का नाम
- \* उम्र
- \* व्यवसाय से जुड़े वर्ष
- \* पौधारोपण के बारे में जानकारी
- \* फूलों के नाम
- \* खाद का निर्माण
- \* पौधों की सिंचाई
- \* आभार

### MATHS

Record the birthdays of your family members in your scrap book. The birthday should be in ascending order of age (youngest member of the family to the eldest member of the family). Also paste pictures of your family members.

### EVS

Look out in your surroundings and try to find out any two problems related to Mother Earth and also suggest ways to find the solution to those problems.

Paste the pictures depicting those problems and their solutions in your scrap book. Also, assign the heading,

**"The Saviours of Earth"**

**Example:**

**PROBLEM**  
Garbage thrown here and there



**SOLUTION**  
Garbage thrown in bins



### ENGLISH

Dear Students

Be your favourite cartoon character and act like that.

Make a one minute video of it and share it with your class incharge.

While making the video be careful for the following points.

- ☆ Leave a moral message for the society.
- ☆ Use English language only.
- ☆ Choose an appropriate costume and a suitable background.

You may take help of any of your family members.

## Time to strengthen our skills :




| Topic        | Activity  |
|--------------|---|
| Handwriting  | Improve your handwriting by practising 3 sentences following the shared formation(English and Hindi ) on daily basis.<br>Don't forget to mention the date on regular basis.   |
| Reading      | Make a habit of reading a story from a story book daily. This will help you to improve your reading skills. Be prepared to be good story teller as we will have a story telling activity after reopening.   |
| Revision     | Revise syllabus of all the subjects from books and notebooks done so far.<br>Complete the pending work if any.  |
| Drawing      | Do the following in your drawing book.<br>1.Turkey (Page No 23 )<br>2. Monster (Page No 25 )<br>3. Tree (Page No 34)<br>4. Thumb impression (Page no 35)  |
| Be Fit       | Keep yourself healthy by waking up early and have a walk with your parents , do some exercises / yoga daily.  |
| मौखिक कार्य  | <ul style="list-style-type: none"><li>• स्कूल डायरी में संकलित प्रार्थना , राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत लयबद्ध तरीके से कंठस्थ कीजिए।</li></ul>   |
| Little Chefs | Dear Children,<br>Discover the culinary genius in your home - your Grandma or Grandpa!<br>◆ <b>Cook Together:</b> Spend quality time making a recipe like a pickle, snack or sweet treat.<br>◆ <b>Nutritional Insights:</b> Discuss the health benefits of the ingredients you're using.<br>◆ <b>Learn Skills:</b> Observe their chopping, measuring, and kitchen tool techniques.<br>◆ <b>Safety Tips:</b> Learn valuable safety tips on handling hot pots, knives, and keeping the kitchen tidy.<br><i>Enjoy this special time and the delicious dishes you create together!<br/>Happy Cooking!</i> |

Use this vacation as an opportunity to look after your parents, grandparents, elders and even your younger brothers and sisters. You can surely be helpful to all of them.




*Summer break will begin from 1<sup>st</sup> June to 30<sup>th</sup> June 2024.  
School shall reopen on 1<sup>st</sup> July 2024 as per summer timing.*

*Submit your activities to your class in charge.*

# HAPPY HOLIDAYS



**Good  
handwriting  
is an  
important  
skill to learn**



# Formation Sheet

A to Z

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

Q R S T

U V W X

Y Z

# Formation Sheet

a to z

a b c d

e f g h

i j k l

m n o p

q r s t

u v w x

y z

Let's save our mother

Earth.

आओ  
लेख  
सुधारें



# व्यंजन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह

क्ष त्र ज्ञ श्र

स्वर

अ आ इ ई

उ ऊ ऋ ए

ऐ औ औं अं

आः

जल ही जीवन है ।





THANK  
YOU

